

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 400]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 जुलाई 2018—आषाढ़ 28, शक 1940

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2018 (आषाढ़ 28, 1940)

क्र. 16057-वि.स.-विधान-2018.—राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश दिनांक 17 जुलाई 2018 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एतद्वारा, इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करती हूं.

भोपाल :
दिनांक 17 जुलाई 2018

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.